

प्रेस नोट

दिनांक- 21.10.2020

व्यापारी से लूट की योजना बनाते हुए एवं पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले 07 नफर शातिर अंतर्राज्यीय अभियुक्त मय असलहा व कारतूस तथा चोरी की मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री दिनेश कुमार पी0 महोदय के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण झाँसी श्री राहुल मिठास, क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर श्री अभिषेक कुमार राहुल के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 21.10.2020 को रात्रि 12.05 बजे थाना मऊरानीपुर पुलिस द्वारा थाना मऊरानीपुर क्षेत्रांतर्गत स्यावरी कोटरा नहर के पास से लूट की योजना बना रहे अपराधियों को जिनको पुलिस टीम द्वारा ललकारने पर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करने वाले 07 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण-

दिनांक 21.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक. थाना मऊरानीपुर तलाश वांछित अभियुक्तगण व सुरागरसी पतारसी थाना मऊरानीपुर क्षेत्र में मामूर थे उसी समय मुखबिर खास ने सूचना दी की रूपाधमना से आगे स्यावरी कोटरा जाने वाली सड़क पर चौराहे के पास नहर के किनारे 06-07 बदमाश चोरी की गाड़ी-यों व अवैध असलहों के साथ किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर प्रभारी मऊरानीपुर द्वारा तत्काल बताये स्थान देखा तो 06-07 व्यक्ति पुलिस की गाडी देखकर स्यावरी कोटरा की तरफ भागे। हमराही फोर्स की सहायता से उक्त व्यक्तियों का पीछा कर घेरा बन्दी की गयी तथा ललकार कर रुकने को कहा गया तो उक्त बदमाशों की तरफ से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से 02 फायर किये गये। पुलिस पार्टी ने अपना बचाव कर घेराबन्दी कर दबिश देकर स्यावरी जाने वाली सड़क के किनारे मुख्य मार्ग से करीब 30 कदम स्यावरी की तरफ समय 12.05 बजे रात्रि, सात लोगों को पकड़ लिया। पकड़े गये वक्तियों के पास से अलग – अलग 315 बोर के 07 तमंचे व जिन्दा कारतूस व 02 खोका कारतूस व चोरी की मोटरसाईकिल बरामद हुए।

लूट की योजना का विवरण-

पकड़े गये व्यक्तियों से गहराई से पूछताछ करने पर बताया कि हम लोगो में से मोहन खटीक काफी पहले ग्राम कोटरा स्यावरी के रहने वाले राजू खटीक व मनोज खटीक पुत्र गण रामदयाल जो कि बकारिया खरीदने व बेचने का व्यापार करता है, के साथ काम करता था। वो अपनी SCORPIO गाडी UP 93 AF 3933 से काफी

ज्यादा कैश लेकर खरीद फरोक्त के लिये जाता रहता था । हम लोगो को जानकारी हुई कि आज रात करीब 02 बजे के आस पास राजू व मनोज करीब 13 लाख रुपये लेकर अपनी SCORPIO से खरीद के लिये मण्डी जायेगे । अतः हम लोग अपनी पूरी तैयारी से असलहो के साथ हाईवे के किनारे व्यापारियो का इंतजार कर रहे थे । इनके आने पर हमे उन्हे गोली मारकर रुपया लूट लेना था और रातों रात म0प्र0 निकल जाना था ।

गिरफ्तारी का दिनांक ,समय एवं स्थान:—

दिनांक 21.10.2020 को रात्रि 12.05 बजे स्यावरी जाने वाली सड़क के किनारे मुख्य मार्ग से करीब 30 कदम स्यावरी थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी

गिरफ्तार अभियुक्त –

- 1-राहुल खटीक S/O दीनदयाल निवासी ग्राम टटम थाना महाराजपुर जिला छतरपुर म0प्र0
- 2- मोहन खटीक P.T.O. भागीरथ खटीक निवासी मो0 देवीनगर थाना जतारा जिला टीकमगढ म0प्र0
- 3- सचिन पाल S/O पंचू पाल निवासी ग्रा0 टटम थाना महाराजपुर जिला छतरपुर म0प्र0
- 4- संजू यादव उर्फ संदीप पुत्र चतुर सिंह यादव निवासी ग्रा0 टटम थाना महाराजपुर जिला छतरपुर म0प्र0
- 5- सुरेन्द्र कुमार रैकवार S/O देवीदीन रैकवार निवासी ग्रा0 टटम थाना महाराजपुर जिला छतरपुर म0प्र0
- 6-राम जी तिवारी S/O भारत प्रसाद तिवारी निवासी संध्या विहार कालोनी सटई रोड थाना सिविल लाईन्स छतरपुर जिला छतरपुर म0प्र0
- 7- आकाश त्रिपाठी S/O बृन्दावन त्रिपाठी निवासी ग्राम पुर थाना महाराजपुर जिला छतरपुर म0प्र0

बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी की मोटरसाईकिल अपाचे सफेद रंग बिना नम्बर जिसकी इंजन नं मिटा हुआ है तथा चेचिस नं0 0 MD634CE42KA2A 02379
2. सात अदद तमन्चे 315 बोर ,
3. तेरह अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर एवं

4. दो अदद खोखो कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 141/18 धारा 363/366 I.P.C. थाना सिविल लाईन जिला छतरपुर म0प्र0
2. मु0अ0सं0 569/20 धारा 399/402 I.P.C. थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी
3. मु0अ0सं0 570/20 धारा 307 I.P.C. थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी
4. मु0अ0सं0 571/20 धारा 41CRPC, 411 I.P.C. थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी
5. मु0अ0सं0 572/20 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी
6. मु0अ0सं0 573/20 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी
7. मु0अ0सं0 574/20 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी
8. मु0अ0सं0 575/20 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी
9. मु0अ0सं0 576/20 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी
10. मु0अ0सं0 577/20 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी
11. मु0अ0सं0 578/20 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना मऊरानीपुर जनपद झांसी

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण: -

1. प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह
2. अति0 निरी0 नयन सिंह
3. उ0नि0 अश्वनी दीक्षित
4. उ0नि0 शिवम सिंह
5. का0 1535 अशोक कुमार
6. का0 1161 रवि भदौरिया
7. का0 951 पुष्पेन्द्र कुमार
8. का0 लोकेन्द्र सिंह
9. का0 1259 अरबिन्द
10. का0 1414 ललित कुमार
11. का0 330 अखिलेश कुमार